

## प्रेस नोट



### यूपी एटीएस के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में खालिस्तान लिबरेशन फ़ोर्स(KLF) के शीर्ष नेता हरमीत सिंह उर्फ़ हैप्पी पीएचडी के दाहिने हाथ गुगनी ग्रेवाल को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

दिनांक : 1 फरवरी, 2020

आज दिनांक 1 फरवरी 2020 को यूपी एटीएस के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में पंजाब से वांछित, हथियार सप्लायर आशीष कुमार पुत्र रामवीर सिंह, निवासी ग्राम- टीकरी, पोस्ट-थाना: जानी, जनपद-मेरठ, हाल पता-मकान नम्बर-34/04 जादूगर रोड, सिविल लाइन, रुड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त आशीष मु.अ.सं.-64/18 धारा - 307, 427, 212, 216, 201, 148, 149, 120बी भा.द.वि. एवं 25/27 आयुध अधिनियम थाना-फेस 1, मोहाली, पंजाब में वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष को पंजाब पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।

गुगनी ग्रेवाल, खालिस्तान लिबरेशन फ़ोर्स के मुखिया, हरमीत सिंह उर्फ़ 'हैप्पी पीएचडी' का मुख्य सहयोगी है और आशीष कुमार पुत्र रामबीर गुगनी ग्रेवाल को हथियार सप्लाई करता था। उल्लेखनीय है कि हरमीत सिंह पीएचडी छेहरता, अमृतसर का निवासी है तथा पिछले दो वर्षों से पाकिस्तान में रह रहा है। अगस्त 2016 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता ब्रिगेडियर रिटायर्ड जगदीश कुमार गगनेजा ( आरएसएस उप प्रमुख-पंजाब) की हत्या में NIA द्वारा अपराध संख्या: **RC-07 /2019 /NIA /DLI** में हरमीत सिंह को आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त शिवसेना नेता अमित अरोरा अपराध संख्या: **RC-24 /2017 /NIA /DLI** व आरएसएस एकटीविष्ट श्री नरेश कुमार निवासी लुधियाना के हत्या के प्रयास में अपराध संख्या : **RC-26 /2017 /NIA /DLI** राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं की हत्या के षड्यन्त्र का दिन प्रतिदिन समन्वय हरप्रीत सिंह द्वारा पाकिस्तान से किया जाता था।



दिनांक 27 जनवरी, 2020 को केएलएफ के शीर्ष नेता हरमीत उपरोक्त को डेरा चाहेल गुरुद्वारा, लाहौर, पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है।

दिनांक 23.11.19 को गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह उर्फ़ बुद्धा, निवासी- कुस्सा, तहसील-निहाल सिंह बाला, जनपद-मोंगा, पंजाब, जो पंजाब के मालवा रीजन, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, का कुख्यात गैंगस्टर है तथा हत्या, सुपारी लेकर हत्या, लूट, रंगदारी आदि के 20 से अधिक मुकदमों में वांछित था, को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सुखप्रीत सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि आशीष उपरोक्त उसके गिरोह को भी हथियार सप्लाई करता था।

## प्रारंभिक पूछताछ :

- पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2009 में अपनी मौसी के लड़के बिट्टू के साथ 150 चीफ ब्रांड अंग्रेजी शराब की बोतल की पेटी के साथ थाना-लालडू जनपद मोहाली पंजाब में पकड़ा गया था और मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था।
- 8 अप्रैल 2010 को आशीष अपने मौसेरे भाई बिट्टू के साथ 40 किलोग्राम डोडा के साथ, थाना-लालडू जनपद मोहाली पंजाब में पकड़ा गया था और उसके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। इस अभियोग में दोनों को 10-10 वर्ष की सजा हुई और वह 1 नवम्बर 2014 से जमानत पर है।
- आशीष ने बताया कि पटियाला जेल में सजा काटने के दौरान उसकी मुलाकात 1. गुगनी ग्रेवाल निवासी मोहाली 2. सुखवीर सिंह उर्फ सुक्खा निवासी करतारपुर 3. रिची निवासी मोहाली व 4. हैप्पी निवासी संगरूर से हुई व गहरी दोस्ती हो गयी।
- 2014 में जेल से बाहर आने के बाद सुखबीर ने आशीष से 5 पिस्टल 32 बोर के मांगे। 3 पिस्टल आशीष द्वारा शाहिल के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवायी गयी।
- उसके बाद 2 पिस्टल आशीष द्वारा सुक्खा को पैसे लेकर दिलवायी गई।
- इसके बाद वर्ष 2016 में गुगनी ग्रेवाल ने आशीष से 12 पिस्टल मांगे जिसपर आशीष द्वारा 4 पिस्टल 32 बोर के गुगनी ग्रेवाल को बेची गयी।
- वर्ष 2017 में 2 पिस्टल आशीष द्वारा गुगनी के भेजे गए व्यक्ति को बेची गयी।
- वर्ष 2018 में पुनः 2 पिस्टल आशीष द्वारा गुगनी के भेजे गए व्यक्ति को बेची गयी।
- वर्ष 2019 में गुगनी के कहने पर 2 पिस्टल सुक्खा द्वारा भेजे गए व्यक्ति को बेची गयी।